महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)

दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक0, रोड नं0—02
पटना—800001
e-mail- support.wdc@bihar.gov.in, Ph : - 0612-2506078 / 0612-2506068

वेबसाईट : https://wcdc.bihar.gov.in/

विज्ञापन सूचना 04/2025—26

महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत ग्यारह नये वन स्टॉप सेंटर (मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णियां, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जमुई) के लिये संविदा आधारित निम्न रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र	पदनाम	कोटिवार रिक्ति							कुल रिक्ति
		UR	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	
1	केन्द्र प्रशासक (Central Administrator) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	5	2	0	2	1	0	1	11 (प्रति जिला—01)
2	केस वर्कर (Case Worker) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	8	3	1	4	3	1	2	22 (प्रति जिला—02)
3	पारा लीगल पर्सनल / लॉयर (Para Legal Personnel/ Lawyer)	5	2	0	2	1	0	1	11 (प्रति जिला—01)
4	पारा मेडिकल पर्सनल (Para Medical Personnel) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	5	2	0	2	1	0	1	11 (प्रति जिला—01)
5	मनो—सामाजिक परामर्शी (Psycho-social Counsellor) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	5	2	0	2	1	0	1	11 (प्रति जिला—01)
6	कम्प्यूटर ज्ञानयुक्त कार्यालय सहायक (Office Assistant with computer knowledge)	5	2	0	2	1	0	1	11 (प्रति जिला—01)
	कुल रिक्त पदों की संख्या	**33**	**13**	**1**	**14**	**8**	**1**	**7**	**77**

वर्णित पदों पर नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता, आवेदन करने की तिथि एवं अन्य मानदंडों, की सूचना महिला एवं बाल विकास निगम के आधिकारिक वेबसाईट https://wcdc.bihar.gov.in/ पर अवलोकन किया जा सकता है।

प्रशासी पदाधिकारी

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश :

1. आवेदन भरने एवं अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://wcdc.bihar.gov.in/ देखा जा सकता हैं। आवेदन हेतु लिंक दिनांक 26-06-2025 को 11 AM से खुलेगा।
2. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
3. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18-07-2025 अपराह्न 6.00 बजे तक निर्धारित हैं। इस तिथि तथा समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
4. उम्मीदवारों से अनुरोध हैं कि नियोजन से सम्बंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओ/ घोषणाओ के लिए नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।
5. विज्ञापित पदों हेतु पदवार शैक्षणिक अहर्ता तथा कार्यअनुभव निम्न हैं -

क्र. स	पद नाम	शैक्षणिक अहर्ता	कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता
1	केंद्र प्रशासक (महिलाओ हेतु आरक्षित)	कानून/ समाज कार्य/ समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/ समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर।	महिलाओ के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। **प्राथमिकता :-** महिलाओ के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में एक वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2	केस वर्कर (महिलाओ हेतु आरक्षित)	कानून/ समाज कार्य/ समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/ समाज विज्ञान में स्नातक।	महिलाओ के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। **प्राथमिकता :-** स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3	पारा लीगल पर्सनेल /लॉयर	कानून में स्नातक के साथ महिलाओ से	महिलाओ से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम

		सम्बंधित कानून में प्रशिक्षित या महिलाओ से सम्बंधित कानून की जानकारी	में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या न्यायालय में मुक़दमे के पैरवी करने का 2 वर्ष का अनुभव। **प्राथमिकता :-**
4	पारा मेडिकल पर्सनेल (महिलाओ हेतु आरक्षित)	पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री/ डिप्लोमा।	सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से सम्बंधित परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
5	मनो सामाजिक परामर्शी (महिलाओ हेतु आरक्षित)	मनोविज्ञान/ तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो साइंस) में स्नातक।	महिला स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
6	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक	स्नातक सहित कंप्यूटर/ आई. टी में डिप्लोमा।	डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी/ आई. टी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

6. उक्त भर्ती/ नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत/ तय की गई आरक्षण नीति (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होगी।
   i. ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगी एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -70 दिनांक 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओ में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय होगी। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
   ii. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के सम्बंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध

होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

iii. ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

iv. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। सम्बंधित मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार में बुलाये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य हैं, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण से सम्बंधित प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या तथा निर्गत होने की तिथि, आवेदन पत्र के सम्बंधित कॉलम में दर्ज़ करना अनिवार्य होगा।

vii. सभी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य हैं।

viii. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष से पूर्व के होने की स्थिति में, उक्त आशय से सम्बंधित शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।

ix. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओ का जाति/ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

x. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का दावा करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य हैं, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परन्तु राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

xi. अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड़ करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड़ किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट हैं।

7. उम्र सीमा - संविदा आधारित उक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना, आवेदन प्रकाशन की तिथि से होगी -

विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्न होगी -

i. अनारक्षित वर्ग (पुरुष)- 37 वर्ष

ii. अनारक्षित वर्ग (महिला)- 40 वर्ष

iii. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग- (पुरुष/ महिला)- 40 वर्ष

iv. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष/ महिला)- 42 वर्ष

8. कॉउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंको का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन में गलत दावा कर अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता को रद्द किये जाने का अधिकार महिला एवं बाल विकास निगम के पास सुरक्षित रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में अपने प्रमाण पत्र के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा गलत सूचना दिये जाने की स्थिति में जांचोपरांत, उनकी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए उनपर आवश्यक कानूनी कार्यवाई निगम के द्वारा की जाएगी। Rojgar Result RojgarResult.Com

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ यथा - शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/ शैक्षणिक अंक, कार्यानुभव प्रमाणपत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैनकार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर कार्ड) की मूल प्रति एवं उसकी छाया-प्रति को स्वअभिप्रमाणित करते हुए कॉउंसलिंग/ साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से

लाएंगे। सत्यापन के बाद मूल प्रमाणपत्र की प्रति अभ्यर्थियों को वापस लौटा दी जाएगी।

10. महिला एवं बाल विकास निगम बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों से सम्बंधित विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
11. एक वर्ष के लिए प्रारंभ में तीन माह के प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत शेष अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जायेगा। संविदा के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी सविधा के हकदार माने जायेंगे। संविदा के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूणतः अस्थाई होगी, जो बिना किसी सूचना के या 15 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं।
13. नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि का नवीनीकरण/सेवा विस्तार कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जायेगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाईम/ फुल टाईम किसी अन्य कार्यालय/ संस्थान में कार्य नहीं करेंगे।
14. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्यानुभव प्रमाण -पत्र ही मान्य होंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्यानुभव प्रमाण -पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
15. अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किये गये आवेदन की प्रिंट ले कर, सबमिट सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निबंधित डाक से आवेदन करने के 10 दिनों के भीतर निगम मुख्यालय को निम्न पता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-

    महिला एवं बाल विकास निगम
    खाद्य भवन रोड़,
    2, दरोगा प्रसाद राय पथ,
    वीरचंद पटेल रोड़ एरिया
    आर. ब्लॉक, रोड न.-2
    पटना, बिहार - 800001

16. अभ्यर्थी निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले आवेदन की प्रति तथा दस्तावेज़ से सम्बंधित लिफ़ाफ़े के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा पद नाम का उल्लेख करेंगे।
17. मेधा सूची में सामान्य अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
18. अंतिम रूप से नियोजन का निर्णय निगम द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर महिला एवं बाल विकास निगम को होगा।

नोट : केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे की चयन प्रक्रियाओ के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हक़दार नहीं होगा। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की जिम्मेवारी हैं।

महिला एवं बाल विकास निगम के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के नियोजन अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रसाशी पदाधिकारी

नियोजन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -

1. विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु अंतिम मेधा सूची का निर्माण निम्न प्रकार की जाएगी-
   प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता - 60 अंक (अधिकतम)
   प्रासंगिक कार्य अनुभव - 15 अंक (अधिकतम)
   साक्षात्कार -25 अंक (अधिकतम)

क्र. स	योग्यता	अंक
1.	प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक	60 (अधिकतम)
2.	प्रासंगिक कार्य अनुभव से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक देय होगी, जो अधिकतम 15 अंक होगी।	15 (अधिकतम)
3.	साक्षात्कार	25 (अधिकतम)
	कुल	100

2. चयन समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की, वन स्टॉप सेंटर के प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हैं।
3. विभिन्न पदों पर नियोजन, उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।
4. रिक्त पदों पर चयन के लिए कम से कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा, ताकि चयनित कर्मी द्वारा पद त्याग/निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती हैं।
5. विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का प्रथम तीन माह परिक्ष्यमान अवधि होगी। इस अवधि में किये गये कार्य की समीक्षा निगम द्वारा की जाएगी, जिसके आधार पर चयनित कर्मी की सेवा संविदा अवधि तक जारी रखने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।
6. सामान मेधा अंक एवं सामान जन्म तिथि की स्थिति में लॉटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जायेगा।

7. चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस प्राधिकार से निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र एवं सरकारी अस्पताल/ संस्थान द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
8. निगम मुख्यालय द्वारा चयन कर चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न सम्बंधित जिलों में पदस्थापित किया जायेगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों का मुख्यालय, पदस्थापन पदस्थापन जिला होगा और इनका नियंत्री पदाधिकारी सम्बंधित जिला के जिलाधिकारी होंगे।
10. चयनित अभ्यर्थियों के मानदेय का भुगतान सम्बंधित जिला में दर्ज़ उपस्थिति के अनुसार सम्बंधित सम्बंधित जिला द्वारा किया जायेगा। साथ ही अन्य लाभ यथा EPF/ESIC आदि का भुगतान एवं अवकाश की स्वीकृति भी सम्बंधित जिला के माध्यम से किया जायेगा।
11. चयनित अभ्यर्थियों को योगदान स्वीकृति के पूर्व सेवा शर्त से सम्बंधित एकरारनामे पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

निगम के वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु पोर्टल (आवेदन पत्र) का प्रारूप निम्न हैं -

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)

दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक0, रोड नं0–02

पटना–800001

आवेदन-प्रपत्र

विज्ञापन संख्या - 04/2025-26.

पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोड़ करे।

1. आवेदित पद का नाम -............................
2. अभ्यर्थी का नाम -...............................
3. जन्म तिथि - .... (जन्म तिथि हेतु मैट्रिक के प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित पीडीएफ कॉपी संलग्न करे।)
4. माता का नाम -............................
5. पिता/ पति का नाम -.........................
6. आधार कार्ड नंबर - .... (आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित पीडीएफ कॉपी संलग्न करे।)
7. स्थायी आवास का पूरा पता (जिला के नाम तथा पिनकोड के साथ)- ....
8. पत्राचार का पता (जिला के नाम तथा पिनकोड के साथ)- ....
9. श्रेणी-

   सामान्य- ☐

   पिछड़ा वर्ग- ☐

   अति पिछड़ा वर्ग- ☐

अनुसूचित जाति- ☐

अनुसूचित जनजाति- ☐

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग - ☐

अन्य- ☐

(प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित पीडीएफ कॉपी संलग्न करे।)

10. आरक्षण से सम्बंधित प्रमाणपत्र की निर्गत संख्या -
11. आरक्षण से सम्बंधित प्रमाणपत्र के निर्गत होने की तिथि-
12. मोबाईल नंबर -
13. ईमेल आई. डी-
14. शैक्षणिक विवरणी -

क्र. स.	शिक्षा	विषय	पास होने का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड़/ विश्वविद्यालय का नाम	प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित पीडीएफ कॉपी संलग्न करे।
1	मैट्रिक						
2	इंटरमीडिएट						
3	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)						
4	स्नातकोत्तर						
5	प्रोफेशनल डिग्री/ डिप्लोमा						
6	कम्प्यूटर योग्यता						
7	व्यवसायिक प्रशिक्षण						
8	अन्य						

15. कार्य अनुभव-

क्र. स.	संस्थान का नाम एवं पता	पदनाम	कार्य अवधि (वर्ष/माह/ दिन)	कार्य की प्रकृति	प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित पीडीएफ कॉपी संलग्न करे।
1					
2					
3					
4					
5					
6					

घोषणा :- उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य हैं। यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता हैं तो इसके लिए मैं स्वयं ज़िम्मेवार रहूंगी / रहूँगा एवं मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जा सकती हैं।

दिनांक: अभ्यर्थी का हस्ताक्षर